



डा. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी फार हैंडिकैप्ड, उ. प्र., कानपुर - 208024
Dr. Ambedkar Institute of Technology for Handicapped, U.P., Kanpur-24

वित्त समिति की 32वीं बैठक दिनांक 27 मार्च, 2023 का कार्यवृत्त

बैठक ऑनलाइन विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई

उपस्थिति :

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा,
प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ। | अध्यक्ष |
| 2. श्री अजय जौहरी, अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल,
(सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 3. श्री जी0पी0 सिंह, वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ। | सदस्य |
| 4. श्रीमती अंजली सोनी, वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर। | सदस्य |
| 5. प्रो0 रचना अस्थाना, निदेशक, ए0आई0टी0एच0, कानपुर। | सदस्य-सचिव |

32.01 वित्त समिति की 31वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

वित्त समिति की 31वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए उसकी पुष्टि की गयी।

32.02 वित्त समिति की 31वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 के निर्णयों/ संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट।

समिति द्वारा वित्त समिति की 31वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 एवं गत बैठकों के निर्णयों/संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

32.03 (01) वर्ष 2023-24 के डिप्लोमा अनुदानित पाठ्यक्रम के आय-व्यय का अनुमोदन।

समिति द्वारा डिप्लोमा अनुदानित पाठ्यक्रम के वर्ष 2023-24 के आय-व्यय को यथा प्रस्तावित निम्नवत विवरण के अनुसार अवलोकित करते हुए अनुमोदित किया गया।

धनराशि लाख रु. में

विवरण	वर्ष 2021-22 की वास्तविक प्राप्तियाँ	वर्ष 2022-23 में			वर्ष 2023-24 की अनुमानित प्राप्तियाँ
		प्राविधानित प्राप्तियाँ	28.02.2023 तक की प्राप्तियाँ	कुल सम्भावित प्राप्तियाँ	
1	2	3	4	5	6
1. प्रारम्भिक अवशेष	26.83	18.00	18.00	18.00	3.20
2. (अ) शासन से प्राप्त धनराशि					
प्रदेश सरकार से वेतन मद में प्राप्त अनुदान	177.58	268.15	200.00	213.23	215.00
(अतिरिक्त अनुदान जिसकी और आवश्यकता है)	0.00	0.00	0.00	0.00	56.27
प्रदेश सरकार से गैर वेतन मद में अनुदान	13.25	26.50	8.74	26.50	30.00
2.(ब) संस्थान के अन्य स्रोतों से प्राप्तियाँ					
छात्रों से प्राप्त यूजर चार्ज एवं हास्टल अनुसंधान की धनराशि	2.25	2.50	3.29	3.29	5.00
डिग्री पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क की 20 प्रतिशत आय	130.64	139.68	125.00	157.49	132.93
		50.00			
वाहन, भवन किराये, जल मूल्य, विद्युत मूल्य की वसूली, आदि से प्राप्त आय	3.88	2.00	2.75	3.00	4.00
बचत खाते से प्राप्त ब्याज/अन्नपूर्णा योजना हेतु प्राप्त धनराशि	1.17	2.77	0.86	2.53	0.85
कुल योग	355.60	509.60	358.64	424.04	447.25
वर्ष 2022-23 का सम्भावित व्यय				(-)420.84	
अवशेष धनराशि जो आगामी वर्ष में अग्रेनीत की गयी				3.20	

10/5

वर्ष 2021-22 का वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2022-23 में प्राविधानित व्यय के सापेक्ष सम्भावित व्यय तथा वर्ष 2023-24 का अनुमानित व्यय का विवरण

(डिप्लोमा पाठ्यक्रम)

धनराशि लाख रु. में

क्र० स०	मद का नाम	वर्ष 2021-22 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2022-23 में			वर्ष 2023-24 का अनुमानित व्यय
			प्राविधानित व्यय	28.02.2023 तक का वास्तविक व्यय	कुल सम्भावित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतन एवं भत्ते	317.49	422.15	330.42	370.32	404.20
2.	आउट सोर्सिंग (पीओआरडीओ सहित) सर्विस व्यय	17.83	12.00	10.50	11.00	5.00
3.	यात्रा भत्ता	0.55	0.60	0.20	0.20	0.60
4.	कार्यालय एवं प्रकीर्ण व्यय	0.97	1.50	0.67	0.75	1.00
5.	विद्युत व्यय	9.94	18.00	8.60	9.30	10.00
6.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.01	0.75	0.15	0.18	0.50
7.	टेलीफोन/इन्टरनेट	0.15	0.15	0.04	0.05	0.15
8.	जेनरेटर संचालन अनुरक्षण सहित	0.23	0.20	0.04	0.05	0.10
9.	वाहन संचालन एवं अनुरक्षण	0.38	0.75	0.10	0.10	0.50
10.	विधिक (लीगल) एवं व्यावसायिक सेवायें	0.15	0.50	00	00	0.25
11.	विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	1.50	1.00	0.25	0.25	0.50
12.	अतिथि सत्कार एवं मीटिंग से सम्बन्धित व्यय	0.50	0.50	0.05	0.25	0.25
13.	संस्थान एवं छात्रावास के सिविल विद्युत/यांत्रिक और सामान्य अनुरक्षण कार्य	19.75	15.00	4.18	4.25	3.25
14.	चिकित्सा व्यय	0.04	0.50	0.10	0.10	0.50
15.	ऑडिट फीस आदि का भुगतान	0.24	0.30	0.24	0.24	Liab 0.25 0.25
16.	फूड सब्सिडी	0.08	2.50	00	2.00	3.50
17.	अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत जलपान / भोजन की व्यवस्था	00	00	00	00	2.03
18.	छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म के वितरण पर व्यय।	0.50	2.45	00	00	3.00
19.	खेल-कूद मद पर व्यय	0.04	0.30	0.30	00	0.10
20.	वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय	9.67	0.50	00	00	0.10
21.	प्रयोगशालाओं (लैब) का अनुरक्षण	0.00	0.30	0.30	00	0.05
22.	नगर निगम को गृह कर का भुगतान	9.67	11.40	9.67	9.67	9.67
	योग (अ)	389.69	491.35	365.81	408.71	445.75
	पूंजीगत कार्य (Fixed Assets)					
1.	सिविल कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	पुस्तकों का क्रय	0.00	2.25	0.00	0.00	0.50
3.	फर्नीचर का क्रय	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
4.	उपकरणों एवं कम्प्यूटर का क्रय	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
5.	भारत सरकार के अनुदान से दूसरी लिफ्ट की संस्थापना	15.17	15.00	12.13	12.13	0.00
	योग (ब)	15.17	18.25	12.13	12.13	1.50
	कुल योग (अ + ब)	404.86	509.60	377.94	420.84	447.25

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

32.03 (2) वर्ष 2023-24 के डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय-व्ययक का अनुमोदन।

वर्ष 2023-24 से संस्थान के डिग्री पाठ्यक्रम में एक नयी ब्रान्च (60 प्रवेश क्षमता के साथ) प्रारम्भ किये जाने तथा यूजर चार्ज की दरों में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का वित्त समिति की वर्तमान बैठक में अनुमोदन प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में समिति के निर्देशानुसार निम्नवत पुनरीक्षित आय-व्ययक को अवलोकित करते हुए अनुमोदित किया गया।

धनराशि लाख रु. में						
	विवरण	वर्ष 2021-22 की वास्तविक प्राप्तियाँ	वर्ष 2022-23 में			वर्ष 2023-24 की अनुमानित प्राप्तियाँ
			प्राविधानित प्राप्तियाँ	28.02.2023 तक की प्राप्तियाँ	कुल सम्भावित प्राप्तियाँ	
	1	2	3	4	5	6
1.	प्रारम्भिक अवशेष	20.61	240.75	240.75	240.75	162.21
2.	छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क	653.21	697.55	659.70	669.15	695.25
3.	छात्रों से प्राप्त यूजर चार्ज (वर्ष 2023-24 में छात्रों से इन्श्योरेन्स की धनराशि नहीं ली जाएगी)	62.53	71.62	70.27	71.38	100.63
4.	प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	1.75	2.00	1.39	1.39	1.75
5.	संस्थान के महिला छात्रावास से प्राप्त छात्रावास शुल्क की धनराशि	5.40	7.50	Liab 0.21 7.20	Liab 0.21 7.20	7.50
6.	ए0के0टी0यू0 से 2021-22 इन्क्यूबेशन सेन्टर निर्माण हेतु तथा 2022-23 में AICTE एवं अन्य स्रोतों से FDP Workshop एवं Conference हेतु प्राप्त धनराशि	50.00	00	6.56	12.99	0.00
7.	आन्तरिक स्रोतों (I.R.G.) से ट्रान्सफर की जाने वाली धनराशि रु. 2.75+22.25	00	25.00	2.75	2.75	0.00
8.	संस्थान के कार्पस फण्ड एवं अन्य खातों में जमा पर अर्जित ब्याज की धनराशि, जिसका आवश्यक होने पर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।	83.52	218.00	116.78	120.00	123.00
	कुल योग	877.02	1262.42	1105.61	1125.82	1090.34
	वर्ष 2022-23 का सम्भावित व्यय				963.61	
	अवशेष धनराशि जो अग्रणीत की गयी				162.21	

नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त DDUQIP के अन्तर्गत 2020-21 से 2022-23 तक संस्थान में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु AKTU लखनऊ द्वारा रु0 393.00 लाख कार्यदायी संस्था UPRNN को और छात्रावास के फर्नीचर हेतु रु0 22.00 लाख एवं संस्थान में नव स्थापित अटल शोध केन्द्र के उपकरण और फर्नीचर हेतु क्रमशः रु0 104.78 लाख एवं रु0 5.00 लाख AKTU द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है। जबकि शोध केन्द्र से सम्बद्ध स्टाफ के मानदेय हेतु इस संस्थान को रु0 5.22 लाख की धनराशि AKTU द्वारा की गयी है। सभी कार्यों हेतु कुल रु0 530.00 लाख का भुगतान AKTU लखनऊ द्वारा किया गया है।

वित्त समिति की 29वीं बैठक के बिन्दु संख्या 29.08 में डिग्री (स्ववित्त) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों से रु0 800/- वार्षिक की दर से ली जा रही इन्श्योरेन्स की धनराशि शैक्षिक सत्र 2023-24 से न लिये जाने का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि अन्य संस्थाओं में प्रचलित व्यवस्थानुसार यूजर चार्ज की धनराशि में मेडिकल चार्ज के रूप में ली जाने वाली धनराशि में छात्रों के इन्श्योरेन्स के लिए भी धनराशि सम्मिलित कर ली जाये।

वर्ष 2021-22 का वास्तविक व्यय एवं 2022-23 में प्राविधानित व्यय के सापेक्ष सम्भावित व्यय तथा वर्ष 2023-24 का अनुमानित व्यय का विवरण

(डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 2021-22 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2022-23 में			वर्ष 2023-24 का अनुमानित व्यय
			प्राविधानित व्यय	28.02.2023 तक का वास्तविक व्यय	कुल सम्भावित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिक्षकों / स्टाफ को वेतन एवं मानदेय	377.36	425.95	381.57	421.00	477.50
2.	विषय विशेषज्ञों आदि हेतु मानदेय	0.85	1.00	0.88	1.00	1.00
3.	फैकल्टी एवं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम	2.10	3.00	2.15	3.00	3.00
4.	आउट सोर्स सर्विस व्यय (पीओआरओडीओ सहित)	83.27	125.00	112.92	122.00	145.00
5.	यात्रा भत्ता	0.39	1.00	0.75	1.00	1.25
6.	कार्यालय एवं प्रकीर्ण व्यय	4.69	8.00	6.75	8.00	12.00
7.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.15	3.50	1.44	2.00	3.00
8.	विद्युत व्यय	9.58	18.00	10.60	11.50	25.00
9.	टेलीफोन/इन्टरनेट	0.38	1.00	0.77	0.85	1.00
10.	जेनरेटर संचालन अनुरक्षण सहित	0.67	1.50	0.48	0.80	1.50
11.	वाहन संचालन एवं अनुरक्षण	1.09	2.50	1.47	1.75	3.50
12.	विधिक (लीगल) एवं व्यावसायिक सेवायें	0.05	1.00	0.30	0.50	1.00
13.	विज्ञापन	2.00	4.64	2.40	2.61	2.50
14.	अतिथि सत्कार, बैठकों सम्बन्धी व्यय	0.85	26.00	23.19	24.50	1.50
15.	प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण व्यय	2.15	5.00	4.02	4.25	5.00
16.	लैब कन्ज्यूमेबल व्यय	3.65	8.00	7.90	7.90	8.00
17.	इनक्यूबेशन सेन्टर का संचालन व्यय	00	1.00	0.31	0.35	1.00
18.	पुस्तकालय (जरनल्स, मैगजीन, न्यूज पेपर) व्यय	1.27	2.00	0.73	1.00	2.00
19.	ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, शैक्षिक भ्रमण, वर्कशॉप/कान्फ्रेंस सम्बन्धी व्यय	0.27	5.00	Liab 1.50 11.06	Liab 1.50 14.00	7.00
20.	चिकित्सा व्यय (इन्श्योरेंस सहित)	0.45	1.50	0.00	0.05	3.50
21.	आडिट फीस	0.74	1.00	0.64	0.64	Liab 0.94 1.05
22.	दिव्यांग छात्रों को यूनीफार्म वितरण	00	1.50	0.00	0.00	2.50
23.	खेल कूद मद पर व्यय	3.20	5.00	2.10	2.10	Liab 1.00 5.00
24.	वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय	0.95	10.00	4.00	4.00	10.00
25.	टेक फेस्ट कार्यक्रम	0.44	3.50	0.52	0.50	3.50
26.	छात्रों के इन्श्योरेंस का भुगतान	9.83	10.00	7.99	7.99	00
27.	शिक्षण शुल्क की 20% आय सहित डिप्लोमा मद में ट्रान्सफर की गयी/की जाने वाली धनराशि	130.64	179.68	125.00	157.49	132.93
28.	संस्थान के कैम्पस, मार्गों और शैक्षिक परिसर में सिविल, विद्युत और यांत्रिक सम्बन्धित अनुरक्षण कार्य	108.10	234.53	104.91	120.09	Liab 29.89 86.58
	योग	748.12	1089.80	816.35	922.37	978.64
	पूंजीगत कार्य (Fixed Assets)					
1.	सिविल वर्क	17.27	21.14	8.34	8.34	Liab 0.80
2.	पुस्तकों का क्रय	4.69	5.00	0.00	0.00	2.00
3.	फर्नीचर का क्रय	6.25	16.30	7.69	8.99	Liab 1.33 15.00
4.	उपकरणों एवं कम्प्यूटर का क्रय	52.73	106.79	23.91	23.91	Liab 2.18 65.00
5.	रूफ टाप सोलर संयंत्र की स्थापना	0.00	23.39	0.00	0.00	Liab 8.39 9.00
6.	मारुति सुजुकी ईको वैन का क्रय	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	योग	80.94	172.62	39.94	41.24	111.70
	कुल योग	829.06	1262.42	856.29	963.61	1090.34

32.04 संस्थान के डिप्लोमा नियमित और डिग्री स्ववित्त पाठ्यक्रम के वर्ष 2021-22 के लेखों से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की आडिट रिपोर्ट का अवलोकन एवं नये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति।

समिति द्वारा संस्थान के डिप्लोमा अनुदानित और डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के वर्ष 2021-22 के लेखों से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट्स का अवलोकन करते हुए आगामी 03 वर्षों हेतु मैसर्स सिंह एण्ड चौधरी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 16/5 (नया 119/130) बम्बा रोड, गुमटी नं. -5 कानपुर नगर-208005 की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

32.05 संस्थान के स्ववित्त पोषित डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों से लिये जाने वाले यूजर चार्ज की दरों में वृद्धि किये जाने पर विचार।

समिति द्वारा स्ववित्त पोषित डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से शैक्षणिक सत्र 2023-24 से निम्नवत यूजर चार्ज लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया :-

प्रथम वर्ष एवं लेटरल इंट्री सहित नव प्रवेशित छात्र	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	अंतिम वर्ष
रु. 11000/-	रु. 10500/-	रु. 10500/-	रु. 10500/-

32.06 संस्थान के संग्रहित फालतू और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण पर विचार।

समिति द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से परीक्षण कराते हुए प्रशासकीय परिषद/सोसाइटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।


(प्रो० रचना अस्थाना)
निदेशक/सदस्य सचिव
ए.आई.टी.एच., कानपुर


13/04/23
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष, वित्त समिति/
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन

पत्रांक 239/ए०आई०टी०एच०/2023-24
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

दिनांक 18 अप्रैल, 2023

1. सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।


(प्रो० रचना अस्थाना)
निदेशक/सदस्य सचिव
ए०आई०टी०एच०, कानपुर।